



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आषाढ़ 1931 (श०)
(सं० पटना 303) पटना, सोमवार, 29 जून 2009

सं० 4/ब2-1028/2007-गृ०आ०-2855

गृह विभाग

संकल्प

18 मई 2009

विषय--भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सिपाहियों को बिहार पुलिस में गठित स्पेशल आक्विजलरी पुलिस में 11500 सैप, 100 जूनियर कमिश्नड ऑफिसर एवं 400 रसोइया को वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए अनुबंध पर रखने की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार राज्य में उग्रवादी गतिविधियों/हिंसात्मक गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण रखने एवं विधि-व्यवस्था के संधारण हेतु गृह (आरक्षी) विभाग के संकल्प संख्या 3379, दिनांक 27 मार्च 2006 द्वारा भारतीय सेना से सेवानिवृत्त 5000 सिपाहियों को अनुबंध पर प्राप्त कर एक वर्ष के लिए रखने की स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसका गठन स्पेशल आक्विजलरी पुलिस (Special Auxiliary Police) के रूप में किया गया था तथा पुलिस अधिनियम के तहत बिहार पुलिस का अंग घोषित किया गया था। पुनः स्पेशल आक्विजलरी पुलिस का अवधि विस्तार अप्रैल, मई एवं जून, 2007 तक किया गया था। तत्पश्चात गृह (आरक्षी) विभाग के संकल्प संख्या 4170, दिनांक 14 अगस्त, 2008 द्वारा भारतीय सेना से सेवानिवृत्त 11500 सिपाहियों, 100 जूनियर कमिश्नड ऑफिसर एवं 400 रसोइयों को वित्तीय वर्ष 2008-09 में 9 माह के लिए अनुबंध पर प्राप्त कर स्पेशल आक्विजलरी पुलिस का गठन किया गया था। इसके बाद गृह (आरक्षी) विभाग के संकल्प संख्या 4170, दिनांक 14 मई 2008 द्वारा भारतीय सेना से सेवानिवृत्त 11500 सिपाहियों, 100 जूनियर कमिश्नड ऑफिसर एवं 400 रसोइयों को वर्ष 2008-09 हेतु पुराने अनुबंधों की शर्तों एवं देय भुगतान के आधार पर नवीन अनुबंध कर नियोजित किया गया। साथ-ही-साथ जूनियर कमिश्नड ऑफिसर के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 50 वर्ष किया गया।

2. सैप के गठन से विगत वर्षों में बिहार पुलिस की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि एवं पुलिस बल के मनोबल में सुधार हुआ है। सैप के गठन से उग्रवादियों एवं संगठित अपराधियों के विरुद्ध छापेमारियां तेज हुईं। सैप के गठन के पश्चात् विगत वर्ष में अपराध नियंत्रण, उग्रवाद निरोध एवं विधि व्यवस्था संधारण में अपेक्षित सहायता मिली है।

3. पुलिस मुख्यालय द्वारा सूचित किया गया है कि अभी तक पुलिस बल में प्रभावकारी वृद्धि नहीं हो पायी है अतएव सैप का अवधि विस्तार नहीं करने से अपराध नियंत्रण का कार्य जिस प्रकार हुआ है उसमें अवरोध उत्पन्न होने की आशंका है। पुलिस मुख्यालय द्वारा सैप के प्रभावकारी कार्य एवं पुलिस बल की वर्तमान आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में अगले एक वर्ष के लिए भारतीय सेना से सेवानिवृत्त 11500 सिपाहियों, 100 जूनियर कमिशनड ऑफिसर एवं 400 रसोइयों को वर्ष 2009-10 हेतु पुराने अनुबंधों की शर्तों एवं देय भुगतान के आधार पर नवीन अनुबंध कर नियोजित किया जायेगा।

4. इस हेतु प्रावधानित राशि पर पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना का सीधा नियंत्रण होगा। राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस उप-महानिरीक्षक (प्रशासन), बिहार, पटना होंगे तथा जिला स्तर पर संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक होंगे। राशि की निकासी सचिवालय, कोषागार सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी एवं जिला स्तर पर संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

आदेश.--आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति सभी विभागीय प्रधान सचिवों/सचिवों/सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गोकुल किशोर दत्त,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 303-571+1000-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>